



# पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

## सराहनीय कार्य

दिनांक 15.02.2021

### 1-थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा 01 हत्यारा अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 15.02.2021 को थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा हत्या के अभियुक्त सुनील यादव पुत्र जगदीश यादव निवासी पकडिया थाना नंदगज जिला गाजीपुर वर्तमान किरायेदार पवन भाटी का मकान मोहन मंदिर वाली गली कस्बा व थाना सूरजपुर जनपद गौतमबुद्धनगर को उसके किराये के कमरे से गिरफ्तार किया गया है।

दिनांक 08.02.2021 को संजू (काल्पनिक नाम) पुत्री खेमचंद निवासी तिर्वा जिला कन्नौज वर्तमान निवासी कस्बा व थाना सूरजपुर जनपद गौतमबुद्धनगरका शव किराये के मकान की दूसरी मंजिल पर बने खाली कमरे में पडा मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में संजू के गर्दन की हड्डी टूटी हुई तथा अन्य चोटों से मृतका की हत्या होना प्रकाश में आने पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर थाना सूरजपुर मु0अ0सं0 113/2021 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त सुनील यादव उपरोक्त प्रकाश में आया। पूछताछ में सुनील यादव ने स्वीकार किया कि उसने मृतका से दोस्ती करने के लिए कहा था परन्तु मृतका के मना करने पर सुनील यादव ने गुस्से में आकर अपने हाथों से गला दबाकर हत्या कर दी थी।

### अभियुक्त का विवरण-

सुनील यादव पुत्र जगदीश यादव नि0 पकडिया थाना नंदगज जिला गाजीपुर वर्तमान पता किरायेदार पवन भाटी का मकान मोहन मंदिर वाली गली कस्बा व थाना सूरजपुर जनपद गौतमबुद्धनगर।

### पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 113/2021 धारा 302 भादवि बनाम सुनील यादव थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर।



## 2- थाना सेक्टर 39 नोएडा पुलिस द्वारा दुष्कर्म का आरोपी 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 15.02.2021 को थाना सेक्टर 39 नोएडा पुलिस द्वारा मु0अ0स0 489/2020 धारा 376 /120बी भादवि 3/4 पोक्सो अधिनियम में वांछित अभियुक्त नितिन कुमार मिश्रा पुत्र श्री हौसला प्रसाद मिश्रा निवासी खलवा का पुरवा पो0 मोहम्मदपुर थाना अन्तु जिला प्रतापगढ को उसके निवास स्थान से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त द्वारा शादी का झूठा आश्वासन देकर वादी की पुत्री के साथ सम्बन्ध बनाकर बाद में शादी से लिए मना कर दिया गया था।

### अभियुक्त का विवरण-

नितिन कुमार मिश्रा पुत्र श्री हौसला प्रसाद मिश्रा निवासी खलवा का पुरवा पो0 मोहम्मदपुर थाना अन्तु जिला प्रतापगढ।

### आपराधिक इतिहास का विवरण-

मु0अ0स0 489/2020 धारा 376/120बी भादवि 3/4 पोक्सो अधिनियम थाना सेक्टर 39 गौमबुद्धनगर।



# दिनांक 15.02.2021 को रात्रि में थानाध्यक्ष नॉलेज पार्क द्वारा एक्सप्रेस वे पर गश्त के दौरान पाया गया कि बीटा 2 व नॉलेज पार्क के बॉर्डर पॉइंट यमुना एक्सप्रेस वे पुल के नीचे बालू सड़क पर गिर पड़ी है जिस पर दो पहिया वाहन रात्रि में अचानक चढ़कर फिसलेंगे व गम्भीर परिणाम हो सकते इस पर तत्काल थाना नॉलेज पार्क से फावड़े मंगवाए गए व PRV 1420 व थार मोबाइल तथा माइक मोबाइल पर नियुक्त स्टाफ के सहयोग से बालू को सड़क से हटाकर किनारे कराई गई व सड़क दुर्घटना की संभावना को खत्म किया गया, जिसे देख आने जाने वाले राहगीरों ने वाहनों को रोक कर कमिश्नर गौतमबुद्धनगर पुलिस की कार्यशैली से प्रभावित होकर पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई।